



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 1976/माघ 2, 1897

No. 22] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 1976/MAGHA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd January, 1976

No. 1/6/75-Mat.V.—In pursuance of Tariff Commission's Report on the Fair Selling Price of Antimony, the Government has been fixing the fair selling price of Antimony metal produced by M/s. Star Metal Refinery (P) Ltd. from time to time. The last enquiry into the cost of production of Antimony was made by the Tariff Commission in 1969 and selling price of Antimony has been fixed since July, 1969 on the basis of the formula suggested by the Tariff Commission. As the period covered by the Tariff Commission's Report (1969) had expired and there had been a number of changes which called for a fresh enquiry, the Tariff Commission was requested to undertake fresh enquiry into the fair selling price of Antimony metal and submit a report to Government.

2. The Tariff Commission submitted its report on the Fair Selling Price of Antimony on 8th August, 1975 wherein the following recommendations have been made:—

- (1) The domestic demand for antimony metal for the current year (1975) is estimated to be of the order of about 1000 tonnes. No appreciable spurt in the demand for the metal during the next three years is anticipated.

- (2) The setting up of a second smelter at this stage when the estimated demand for the metal is about 1000 tonnes and there is uncertainty about our being able to import the required quantity of ore due to foreign exchange constraints would probably result in additional idle capacity. The question of setting up another smelter may therefore be deferred for the time being and the matter taken up only when there are firm indications of a substantial increase in the demand of antimony.
- (3) The canalisation of antimony ore through the M.M.T.C. should continue at least for the time being.
- (4) The only way to ensure that the producer, who is required to sell antimony metal at the fixed fair price, has some certainty regarding the future off-take of the metal at that price, would appear to be to require consumers to register their demand with the producer. Such registration of demand would make a scheme of regulation fair to both the producer and the consumers. A scheme of regulation is therefore proposed.
- (5) The details of the scheme of regulation are as under:—
 - (i) A review of the price of antimony metal produced by the company may be made once in every six months, the price periods being from 1st January to 30th June and from 1st July to 31st December.
 - (ii) The prices should be announced in the first week of January and of July of each six monthly price period.
 - (iii) The consumers should register with the producer their expected demand for antimony metal i.e. the expected quantity of the metal that would be purchased by them during every price period in the form of firm purchase order well in advance. The Star Metal Refinery should in consultation with the M.M.T.C. and its consumers and taking into account the existing procedures for arranging imports of antimony ore, work out a time schedule for the consumers to register their firm demand so as to enable it to arrange the required imports of the ore well in advance through the M.M.T.C.
 - (iv) The Star Metal Refinery may work out in consultation with the consumers and if necessary with the M.M.T.C. the required arrangements to ensure that the demand registered with it is the firm demand on the basis of which it can place its orders for the import of the requisite quantity of the antimony ore.
 - (v) The distribution of the metal by Star Metal Refinery among different consumers would ordinarily be in accordance with the demand registered with it by the consumers. If for any reasons the production falls short of the demand registered, it is necessary that some authority should lay down suitable guide lines, both general and specific, to meet the situation to regulate supplies to the consumers. It is suggested that the D.G.T.D. may be the authority for this purpose.
 - (vi) The price for each price period would be fixed on the basis of (i) the average cost of ore contracted during the period June to November for the following price period January to June and during the period December to May for the following price period July to December and the purchase value of the ore stock at the end of the respective six monthly period, and (ii) the conversion costs.
 - (vii) The Star Metal Refinery should be required to submit to the Government in the first week of December a return showing the value of quantity of ore contracted during the preceding period June to November, the value and quantity of the closing stock of ore as at the end of November and the actual quantity imported during June to November. A similar return should be submitted in the first week of June for the following price period July to December. The return should also include such other information as the Government may consider it necessary.

- (6) Schedules indicating the production costs and fair selling prices of antimony metal at possible production between the minimum and maximum limits of 500 to 1000 tonnes per annum are given in Appendix V (of the Tariff Commission's Report). The schedules should remain effective for a period of three years with effect from 1st July, 1975.
- (7) The actual total production during the preceding six months comprising output from the ore produced by the company, the ore supplied by other consumers for conversion and the production obtained after refining the available slag should be taken into consideration in determining the applicability of the slab for the purpose of conversion cost.
- (8) In its six monthly return to be submitted to the Government showing actual production etc. the Star Metal Refinery should mention explicitly all the reasons affecting the volume of production.
- (9) The Government after scrutinising the various reasons given by the producer for curtailment of production should decide which slab from the schedule will apply for fixing the fair selling price.
- (10) Provision for escalations in respect of ore prices and dearness allowance has been made.
- (11) A demand for about 500 tonnes of antimony metal can be considered as a 'base' or 'minimum demand' in the country.
- (12) The Star Metal Refinery, in consultation with the M.M.T.C., should explore the possibility of having long term contracts for antimony ore to produce at least 500 tonnes of antimony metal annually. The principal benefit of such long term contracts will be regular supply of some minimum quantity of ore at relatively stable prices. This would, to some extent, reduce fluctuation in ore costs and consequently provide some stability in the prices of antimony metal.

3. The Government have taken note of recommendations 1 and 2.

4. The Government have accepted recommendations 3, 5(i), 5(ii), 5(vi), 5(vii), 7, 8, 9, 11 and 12.

5. The Government have accepted recommendation 4 in principle. Recommendations 5(iii), 5(iv) and 5(v) have also been noted and will be brought to the note of all concerned.

6. Recommendations 6 and 10 have been accepted by the Government with the following modifications:—

- (i) The provision of minimum bonus would be revised in accordance with the 'Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1975.'
- (ii) The provision for bonus in excess of the minimum recommended by the Tariff Commission has not been accepted.
- (iii) The conversion cost schedule would be applicable to production limits of 701 to 1000 tonnes per annum. For production rate below 701 tonnes per annum, the conversion cost slab 701 to 750 tonnes would apply.
- (iv) The escalation provision for D.A. would also be applicable for production limit of 701 to 1000 tonnes p.a. For production rate below 701 tonnes p.a., the D.A. escalation provision for the slab 701 to 750 tonnes would apply.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. MARWAHA, Jt. Secy.

इस्पात और लौह मंत्रालय

(लौह विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1976

सं० 1/6/75-धातु-5.—एन्टोमोनो धातु के उचित बिक्री मूल्य पर टैरिफ आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में मे० स्टार मेटल रिफाइनरी (प्रा०) लि० द्वारा उत्पादित एन्टोमोनो धातु के उचित बिक्री मूल्य सरकार समय-समय पर नियत करती रही है। एन्टोमोनो की उत्पादन लागत के बारे में इससे पूर्व टैरिफ आयोग द्वारा 1969 में जांच की गई थी तथा एन्टोमोनो का बिक्री मूल्य जुलाई, 1969 से टैरिफ आयोग द्वारा सुझाए गए फारमूले के आधार पर नियत किया गया था। चूंकि टैरिफ आयोग की रिपोर्ट (1969) की अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा इसमें अनेक ऐसे परिवर्तन हुए थे जिनसे इस मामले में नए सिरे से जांच की आवश्यकता महसूस हुई, तदनुसार टैरिफ आयोग से अनुरोध किया गया कि एन्टोमोनो धातु के उचित बिक्री मूल्य के बारे में नए सिरे से जांच करें तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

2. टैरिफ आयोग ने एन्टोमोनो के उचित बिक्री मूल्य पर 8 अगस्त, 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:—

- (1) चालू वर्ष (1975) के लिए एन्टोमोनो धातु को घरेलू मांग लगभग 1000 टन आंकी गई है। अगले 3 वर्षों में इस मांग में किसी उल्लेखनीय वृद्धि की आशा नहीं है।
- (2) इस स्थिति में जबकि उक्त धातु की प्रत्याशित मांग लगभग 1000 टन है तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अपेक्षित मात्रा में अयस्क का आयात अनिश्चित है, एक अन्य प्रद्रावक की स्थापना संभवतः व्यर्थ हो अतिरिक्त क्षमता के रूप में होगी। अतः फिलहाल दूसरे प्रद्रावक की स्थापना करने के सवाल को भविष्य में उस समय के लिए टाल देना उचित होगा जब एन्टोमोनो की मांग में पर्याप्त वृद्धि के निश्चित संकेत मिलें।
- (3) एन्टोमोनो अयस्क का व्यापार खनिज व धातु व्यापार निगम के माध्यम से फिलहाल जारी रखा जाए।
- (4) इस बात को सुनिश्चित करने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि जिस उत्पादक को एन्टोमोनो धातु नियत मूल्य पर बेचने के लिए कहा जाए, उसके लिए उसी मूल्य पर धातु की भावी बिक्री का भी गारंटी हो इसके लिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता लोग अपनी मांग उत्पादक के पास पंजीकृत कराएं। मांग के इस पंजीकरण से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही उचित नियमन की योजना का लाभ मिलेगा। अतः नियमन की योजना प्रस्तावित की जाती है।
- (5) विनियमन की योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

- (i) कम्पनी द्वारा उत्पादित एन्टोमोनो धातु के मूल्य का प्रत्येक छमाही में एक बार पुनरीक्षण किया जाए, ये मूल्य अवधियां 1 जनवरी से 30 जून तक तथा 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की हों।

- (ii) प्रत्येक छमाही मूल्य अवधि की जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मूल्यों की घोषणा कर दी जाए।
- (iii) उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे एन्टोमोनी धातु को अपनी प्रत्याशित मांग अर्थात् उस धातु की प्रत्याशित मात्रा, जिसे वे प्रत्येक मूल्यावधि में खरीदेंगे, पहले से ही निश्चित क्रय आदेश के रूप में समय से उपभोक्ता के यहां रजिस्टर करा दें स्टार मेटल रिफाइनरी को चाहिए कि वह धातु खनिज व्यापार निगम तथा अपने उपभोक्ताओं के परामर्श से और एन्टोमोनी अयस्क के आयात की मीजूदा प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उपभोक्ताओं द्वारा अपनी निश्चित मांग रजिस्टर कराने के लिए समय सारणी बना लें ताकि वह खनिज धातु व्यापार निगम के माध्यम से अयस्क की अपेक्षित मात्रा के आयात का प्रबन्ध कर सके।
- (iv) स्टार मेटल रिफाइनरी को उपभोक्ताओं के परामर्श से और यदि आवश्यक हो तो खनिज धातु व्यापार निगम के परामर्श से अपेक्षित प्रबंध कर लेने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास पंजीकृत मांग वास्तविक मांग है और इसके आधार पर एन्टोमोनी अयस्क की अपेक्षित मात्रा का आयात करने हेतु आर्डर दिए जा सकते हैं।
- (v) स्टार मेटल रिफाइनरी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच धातु का वितरण सामान्यतः उसके पास उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकृत मांग के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पंजीकृत मांग से उत्पादन कम हो जाता है तो यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को सप्लाई नियमित रखने के बारे में किसी प्राधिकरण द्वारा सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के निर्देशक सिद्धान्त बना देने चाहिए। सुझाव है कि यह प्राधिकरण तकनीकी विकास महानिदेशालय हो।
- (vi) प्रत्येक मूल्यावधि के लिये मूल्य का निर्धारण:—(i) अयस्क को, औसत लागत के आधार पर जो जन से नवम्बर की अवधि में, जनवरी से जून तक की आगत मूल्य अवधि के लिए तथा दिसम्बर से मई की अवधि में जुलाई से दिसम्बर तक की आगत मूल्य-अवधि के लिए और संबंधित छमाही अवधि के अंत में अयस्क स्टॉक के खरीद मूल्य पर तय होगी तथा (ii) परिवर्तन लागतों के आधार पर किया जाएगा।
- (vii) स्टार मेटल रिफाइनरी को दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में सरकार को एक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें जून से नवम्बर तक की पिछली अवधि के दौरान संवेदित अयस्क की संविदागत मात्रा और मूल्य, नवम्बर के अंत में अयस्क के बन्द स्टॉक की कीमत और मात्रा तथा जून से नवम्बर के दौरान आयात की गई मात्रा दिखाई गई हो। ऐसी ही एक विवरणी जुलाई से दिसम्बर की आगत मूल्यावधि के लिए जून के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस विवरणी में ऐसी सारी जानकारी शामिल होनी चाहिए जिसे सरकार आवश्यक समझती हो।
- (6) एन्टोमोनी धातु की 500 से 1000 टन के बीच संभावित वार्षिक उत्पादन की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं में उत्पादन लागत और उचित बिक्री मूल्य की

अनुसूचियां टैरिफ आयोग की रिपोर्ट के परिशिष्ट में दी गई हैं। ये अनुसूचियां 1 जुलाई, 1975 से 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगी।

- (7) पिछली छमाही में कुल वास्तविक उत्पादन जिसमें कम्पनी द्वारा उत्पादित अयस्क से प्राप्त उत्पादन भी शामिल है, अन्य उपभोक्ताओं द्वारा परिवर्तन के लिए सप्लाई किया गया अयस्क तथा उपलब्ध धातुमल का शोधन करने के बाद प्राप्त उत्पादन को परिवर्तन लागत के उद्देश्य से सोपान-क्रम का निष्पत्ति करने समय ध्यान में रखना चाहिए।
- (8) सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली छमाही विवरणी में, जिसमें वास्तविक उत्पादन आदि का उल्लेख रहता है, स्टार मेटल रिफाइनरी द्वारा उन कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, जिनसे उत्पादन प्रभावित हुआ हो।
- (9) उत्पादक द्वारा उत्पादन में कटौती के संबंध में बताए गए कारणों की छानबीन करके सरकार यह निर्णय ले कि उचित बिक्री मूल्य नियत करने के संबंध में अनुसूची में से कौनसा सोपान लागू होगा।
- (10) अयस्क मूल्यों तथा मंहगाई अंशों के संबंध में बढ़ोतरी का प्रावधान कर लिया गया है।
- (11) एन्टीमोनी धातु को लगभग 500 टन की मांग को देश की 'आधार भूत' अथवा न्यूनतम मांग समझा जा सकता है।
- (12) स्टार मेटल रिफाइनरी को चाहिए कि वे खनिज धातु व्यापार निगम के परामर्श से एन्टीमोनी अयस्क के दीर्घावधि ठेके करने की संभावनाओं का पता लगाए ताकि प्रति वर्ष कम से कम 500 टन एन्टीमोनी अयस्क का उत्पादन किया जा सके। इन दीर्घावधि ठेकों का मुख्य लाभ यह होगा कि अपेक्षाकृत स्थिर मूल्यों पर अयस्क की न्यूनतम मात्रा की नियमित पूर्ति हो सकेगी। इससे कुछ हद तक अयस्क की लागत में उतार चढ़ाव कम हो जाएगा और परिणामतः एन्टीमोनी धातु के मूल्यों में कुछ स्थिरता आ जाएगी।

3. सरकार ने सिफारिश 1 और 2 को नोट कर लिया है।

4. सरकार ने सिफारिश 3, 5(I), 5(II), 5(VI), 5(VII), 7, 8, 9, 11 और 12 को स्वीकार कर लिया है।

5. सरकार ने सिफारिश 4 को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है। सिफारिश 5 (III) 5 (IV) तथा 5 (V) को भी नोट कर लिया गया है तथा इन्हें सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाएगा।

6. सरकार द्वारा सिफारिश 6 और 10 निम्नलिखित आशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई है :—

- (i) न्यूनतम बोनस के प्रावधान को बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
- (ii) न्यूनतम बोनस से अधिक बोनस देने के प्रावधान के लिए टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है।

- (iii) परिवर्तन लागत अनुसूची 701 से 1000 टन वार्षिक उत्पादन सीमा पर लागू होगी। 701 टन से कम की वार्षिक उत्पादन दर पर 701 से 750 टन परिवर्तन लागत सोपान लागू होगा।
- (iv) मंहगाई भत्ते के लिए वृद्धि का प्रावधान 701 से 1000 टन वार्षिक उत्पादन सीमा पर भी लागू होगा। 701 टन से कम वार्षिक उत्पादन के लिए 701 से 750 टन सोपान पर लागू मंहगाई भत्ता वृद्धि प्रावधान लागू होगा।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ज० मरवाह, संयुक्त सचिव।

